

प्रेस नोट 23-10-2020

माननीय मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार के निर्देशानुसार आज दिनांक 23.10.2020 को महिला हेल्प डेस्क और आगंतुक कक्ष का वर्चुअल शुभारंभ किया गया तथा जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों पर महिला हेल्प डेस्क का जनपद के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा लोकार्पण किया गया जिसमें प्रत्येक थानों पर थानाक्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति/महिलाये/छात्रायें उपस्थित रही। जनपद के सदर कोतवाली थाना पर महिला हेल्प डेस्क का लोकार्पण श्रीमती संजू सिंह, ब्लाक प्रमुख नौगढ़ द्वारा किया गया। श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सहित श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर व थाना के समस्त अधिकारी कर्माचारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन दिलीप कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनपद में मिशन शक्ति के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए निम्न बातों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी-

1. Help Line नम्बरों के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया कि कब और किस समय हमें नीचे दिये गये हैल्प लाइन नम्बरों पर सम्पर्क कर सहायता लेनी चाहिये।
 - 1090: वीमेन पावर लाइन प्रदेश स्तर,
 - 112 : आपातकालीन हैल्प लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर,
 - 181 : महिला हेल्प लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर,
 - 1076 : मा0 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर,
 - 108 : आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा राष्ट्रीय स्तर,
 - 102 : एंबुलेंस सेवा राष्ट्रीय स्तर,
 - 1098 : चाइल्ड लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर आपातकालीन सेवा।
2. महिला को अपनी समस्या बताने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस सदैव आपके साथ है।
3. यदि महिला डरेगी तो अपारधियों का मनोबल बढेगा और ये दूसरों को भी परेशान करेंगे।
4. घरेलू हिंसा के संबंध में निडर होकर पुलिस को सूचना दे।
5. महिलाओं को पढ़ाई का समान अवसर प्रदान करें।
6. किसी अन्य महिला को परेशान देखे तो उनकी भी मदद करें या हमारे हेल्प लाइन नम्बरों पर काल करें।
7. किसी लड़की/महिला को कोई किसी भी प्रकार से परेशान करता हो तो उसकी शिकायत हेल्प लाइन नम्बरों के माध्यम से करें, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

प्रेस नोट जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 23.10.2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक खेसरहा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री राजेश कुमार तिवारी कुमार व मय हमराह के द्वारा थाना खेसरहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2020 धारा 354क IPC व 7/8 पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त कृष्ण प्रताप चौधरी पुत्र बाबूराम चौधरी निवासी सरैनिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को घोसियारी तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।



प्रेस नोट जनपद सिद्धार्थनगर

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सि०नगर व प्रभारी निरीक्षक मोहाना राधेश्याम राय के कुशल निर्देशन में DG महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान अवैध शस्त्रधारी, वाहन चोरी, व अवैध मादक पदार्थों के सेवन व बिक्री पर कार्यवाही करते हुये SOG टीम के सहयोग से मोहाना पुलिस द्वारा निम्न मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

1. मु०अ०सं० 233/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
2. मु०अ०सं० 234/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
3. मु०अ०सं० 235/2020 धारा 8/21 NDPS Act
4. मु०अ०सं० 236/2020 धारा 8/21 NDPS Act
5. मु०अ०सं० 237/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि व धारा 207 MV Act

अभियुक्त का विवरण

1. असगर उर्फ किनकिन पुत्र कतीवन साकिन रामगढ़ टोला गोपीजोत थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. अतहर पुत्र रंजीत सा० परसा महापात्र थाना व जिला सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद देशी तमंचा
2. एक जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. एक अदद चाकू
4. 350 गोली नशीली दवा
5. एक अदद मोटरसाइकिल

घटना का विवरण

- स्थान- मेखड़ा नाला चिल्हिया मोड़
- दिनांक घटना -23.10.2020

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

01. उ०नि० श्री आनन्द कुमार
02. उ०नि० श्री पंकज कुमार पाण्डेय
03. उ०नि० श्री हरिन्द्र पाठक
04. का० प्रमोद जायसवाल
05. का० दिलीप कुमार द्विवेदी
06. का० विवेक कुमार मिश्रा

07. का0 आनन्द यादव
08. का0 राजेश शुक्ला
09. का0 अवनीश
10. का0 विरेन्द्र त्रिपाठी
11. का0 पवन तिवारी
12. का0 मृत्युन्जय कुशवाहा
13. का0 अभिनव कुमार

